

फॉर्म एनएल-38-हानि की बढ़ोत्तरी (वार्षिक प्रस्तुतीकरण)

बीमाकर्ता का नाम : ईसीजीसी लिमिटेड

दिनांक : 02-06-2023

भारत में
राशि लाख रु. में

विवरण	सामूहिक हामीदारी वर्ष										
	वर्षांत 31-मार्च-2013*	वर्षांत 31-मार्च-2014	वर्षांत 31-मार्च-2015	वर्षांत 31-मार्च-2016	वर्षांत 31-मार्च-2017	वर्षांत 31-मार्च-2018	वर्षांत 31-मार्च-2019	वर्षांत 31-मार्च-2020	वर्षांत 31-मार्च-2021	वर्षांत 31-मार्च-2022	वर्षांत 31-मार्च-2023
अ] अंतिम शुद्ध हानि लागत - मूल अनुमान	94,128	1,19,917	1,11,568	2,10,867	1,64,306	2,11,612	2,49,132	2,54,458	2,33,448	2,24,311	2,28,750
आ] शुद्ध दावा प्रावधान	88,707	1,16,611	1,07,976	2,08,421	1,57,135	2,10,151	2,45,073	2,53,427	2,33,198	2,21,177	2,24,190
इ] तक संचयी भुगतान	-										
एक वर्ष बाद - प्रथम वर्ष के अंत में	50,543	29,683	14,470	26,966	18,897	18,579	15,283	19,789	7,950	13,589	
दो वर्ष बाद - द्वितीय वर्ष के अंत में	61,712	64,940	40,988	87,924	44,434	27,935	47,099	37,643	16,699		
तीन वर्ष बाद - तृतीय वर्ष के अंत में	63,355	70,507	45,481	1,09,584	51,400	46,285	59,924	52,992			
चार वर्ष बाद - चतुर्थ वर्ष के अंत में	64,142	72,603	48,878	1,09,913	56,799	49,124	67,401				
पांच वर्ष बाद - पांचवें वर्ष के अंत में	64,231	72,742	48,916	1,10,920	59,386	49,380					
छह वर्ष बाद - छठे वर्ष के अंत में	64,310	72,813	48,938	1,13,753	63,723						
सात वर्ष बाद - सातवें वर्ष के अंत में	64,329	72,819	48,942	1,13,858							
आठ वर्ष बाद - आठवें वर्ष के अंत में	64,329	72,819	48,975								
नौ वर्ष बाद - नौवें वर्ष के अंत में	64,439	72,929									
दस वर्ष बाद - दसवें वर्ष के अंत में	64,666										

ई] पुनः अनुमानित अंतिम शुद्ध हानि लागत

एक वर्ष बाद - प्रथम वर्ष के अंत में	99,189	1,59,451	1,18,044	1,61,857	1,28,484	1,16,441	1,62,541	1,28,219	1,24,348	1,10,458	
दो वर्ष बाद - द्वितीय वर्ष के अंत में	88,127	1,49,714	95,437	1,69,624	1,54,988	86,245	1,61,295	90,617	41,762		
तीन वर्ष बाद - तृतीय वर्ष के अंत में	76,122	1,40,595	74,332	1,68,909	1,38,846	90,090	1,26,200	68,295			
चार वर्ष बाद - चतुर्थ वर्ष के अंत में	73,325	1,03,350	64,054	1,52,567	1,18,570	72,078	90,127				
पांच वर्ष बाद - पांचवें वर्ष के अंत में	67,640	91,436	61,253	1,47,254	1,08,349	60,085					
छह वर्ष बाद - छठे वर्ष के अंत में	66,161	96,710	58,242	1,37,164	91,853						
सात वर्ष बाद - सातवें वर्ष के अंत में	64,405	96,481	56,839	1,25,329							
आठ वर्ष बाद - आठवें वर्ष के अंत में	84,106	89,467	62,377								
नौ वर्ष बाद - नौवें वर्ष के अंत में	66,354	92,701									
दस वर्ष बाद - दसवें वर्ष के अंत में	67,622										

अनुकूल/(प्रतिकूल) विकास राशि (अ-ई)	26,506	27,216	49,191	85,538	72,453	1,51,527	1,59,005	1,86,164	1,91,686	1,13,852	
% में [(अ-ई)/अ]	28%	23%	44%	41%	44%	72%	64%	73%	82%	51%	

* वर्ष 2012-13 से उपलब्ध हामीदारी वर्षवार आंकड़े

<http://www.ecgc.in>